

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 1973/अग्राहायण 7, 1895
No. 283] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 1973/AGRAHAYANA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 28th November 1973

G.S.R. 509(E)/Ess. Com. Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the Sugar (Price Determination for 1973-74 production) Order, 1973.

(2) It shall come into force at once.

2. Price of sugar produce in 1973-74 season.—The Central Government hereby determines the prices specified in columns (2) to (7) of Schedule I hereto annexed, as the prices payable for the Indian Sugar Standard (ISS) grades of sugar mentioned therein packed in A Twill new gunny bags and produced in 1973-74 by all vacuum pan sugar factories situated in the areas specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule, that is to say, the factories specified in Schedule II hereto annexed and required to be supplied to the Central Government or a State Government or to an officer or agent of such Government or to any other person or class of persons under clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972.

Provided that where a sugar factory is situated at a distance exceeding five kilometres from the nearest railway station or an out-agency of the railway or from the godowns outside the factory not connected by rail, the producer may charge an additional one paise per quintal of sugar per kilometre beyond five kilometres of the distance between the sugar factory and such railway station or out-agency of the railway, in case of despatches by rail or between the sugar factory and such godowns in case of delivery ex-godowns.

Explanation.—(a) The prices specified in columns (2) to (7) of Schedule I aforesaid:—

- (i) do not include the basic excise duty and additional excise duty in lieu of sales tax, which the producer can recover, at the rate in force at the relevant time, in addition to the prices as determined by this order;
- (ii) include charges on transport from factory godowns and loading of sugar at buyer's option on buyer's carts, lorries or other means of transport or into railway wagons at the railway station or siding generally used by the producer and include siding or wagon hauling charges; and
- (iii) include all the incidental charges including dunnage charges.

(b) The Indian Sugar Standard Grades (ISS Grade) means the grades represented by the standard sealed samples of sugar in bottles issued by the Director, National Sugar Institute, Kanpur conforming to the standards prescribed by the Indian Standards Institution.

SCHEDULE I

Ex-factory prices (Rupees per quintal) Grade-wise for I.S.S. Grades

(Exclusive of Excise Duty)

Area	A-30 B-30 C-30	D-30	E-30	A-29 B-29 C-29	D-29	E-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Punjab	153.36	152.21	151.66	152.36	151.36	150.86
Haryana	152.26	151.11	150.56	151.26	150.26	149.76
Rajasthan	183.76	182.61	182.06	182.76	181.76	181.26
West U.P.	154.62	153.47	152.92	153.62	152.62	152.12
Central U.P.	155.39	154.24	153.69	154.39	153.39	152.89
East U.P.	159.41	158.26	157.71	158.41	157.41	156.91
North Bihar	168.85	167.70	167.15	167.85	166.85	166.35
South Bihar	176.45	175.30	174.75	175.45	174.45	173.95
Gujarat	146.96	145.81	145.26	145.96	144.96	144.46
Madhya Pradesh	195.16	194.01	193.46	194.16	193.16	192.66
Maharashtra	145.94	144.79	144.24	144.94	143.94	143.44
Mysore	150.07	148.92	148.37	149.07	148.07	147.57
Andhra Pradesh	153.24	152.09	151.54	152.24	151.24	150.74
Tamil Nadu & Pondicherry	155.11	153.96	153.41	154.11	153.11	152.61
Assam, Nagaland, Orissa, West Bengal and Kerala	159.31	158.16	157.61	158.31	157.31	156.81

SCHEDULE II

Punjab

1. The Morinda Cooperative Sugar Mills Ltd., Morinda, District Rupar.
2. The Jagatjit Sugar Mills Co., Ltd., Phagwara, District Kapurthala.
3. The Malwa Sugar Mills Co. Ltd., Dhuri, District Sangrur.
4. The Janta Cooperative Sugar Mills Limited, Bhogpur P.O., District Jullundur.
5. The Daoba Cooperative Sugar Mills Limited, Nawanshahr, District Jullundur.
6. The Batala Cooperative Sugar Mills Limited, Batala, District Gurdaspur.

Haryana

1. The Saraswati Sugar Mills, P. O. Yamunanagar, District Ambala.
2. The Haryana Cooperative Sugar Mills Limited, Rohtak P.O., District Rohtak.
3. The Panipat Cooperative Sugar Mills Limited, Panipat P.O., District Karnal.

Rajasthan

1. The Mewar Sugar Mills Limited, Bhupalsagar, District Udaipur.
2. The Ganganagar Sugar Mills Limited, Sri Ganganagar, P.O., District Sri Ganganagar.
3. Shri Keshoraipatan Sahakari Sugar Mills Limited, P. O. Keshoraipatan, District Bundi.

West Uttar Pradesh

1. The Modi Sugar Mills (Prop. Modi Industries Ltd.), Modinagar, District Meerut.
2. The U.P. State Sugar Corporation Limited, Unit Mohiuddinpur, P.O. Mohiuddinpur, District Meerut.
3. Jaswant Sugar Mills Limited, Meerut City, District Meerut.
4. Daurala Sugar Works, Daurala, District Meerut.
5. The U.P. State Sugar Corporation Limited, Unit Sakhoti Tanda, P.O. Sakhoti Tanda, District Meerut.
6. Mawana Sugar Works, Mawana, District Meerut.
7. The Bhagpat Cooperative Sugar Mills Limited, P. O. Bagpat, District Meerut.
8. The Simbhaoli Sugar Mills Private Limited, P. O. Simbhaoli, District Meerut.
9. The Triveni Engineering Works Limited, Sugar Unit, The Upper India Sugar Mills Khatauli, District Muzaffarnagar.
10. Sir Shadi Lal Sugar Mills General Limited, Mansurpur, District Muzaffarnagar.
11. The Amritsar Sugar Mills Company Limited, Rohanakalan, P. O. Rohana Mills, District Muzaffarnagar.
12. The Upper Doab Sugar Mills Limited, Shamli, District Muzaffarnagar.
13. The Pannijee Sugar and General Mills Company, Panninagar, District Bulandshahr.
14. Shri Janki Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun.
15. The Ganga Sugar Corporation Limited, Deoband, District Saharanpur.
16. The Lord Krishna Sugar Mills Limited, Saharanpur, District Saharanpur.
17. Kisan Cooperative Sugar Factory Limited, P. O. Sarsawa, District Saharanpur.
18. Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Private Limited, Lhaksar, District Saharanpur.
19. The Mahalakshmi Sugar Mills Company Limited, Iqbalpur P. O., District Saharanpur.

Central Uttar Pradesh

1. Shiv Prashad Banarsidas Sugar Mills, Bijnor,
District Bijnor.
2. Upper Ganges Sugar Mills Limited, Seohara,
District Bijnor.
3. The Dhampur Sugar Mills Limited, P. O. Dhampur,
District Bijnor.
4. The Ajudhia Sugar Mills, P. O. Raja-Ka-Sahaspur,
District Moradabad.
5. Kundan Sugar Mills (P) Ltd., Amroha, District Moradabad.
6. Raza Buland Sugar Comany Limited, P. O. Rampur,
District Rampur.
7. H. R. Sugar Factory Private Limited, Bareilly,
District Bareilly.
8. The Kesar Sugar Works Limited, Behari,
District Bareilly.
9. Rosa Sugar Works of Carew and Company Limited,
Rosa, District Shahjahanpur.
10. L. H. Sugar Factories and Oil Mills Private Limited,
Pilibhit, District Pilibhit.
11. The Kisan Cooperative Sugar Factory Limited,
Majhola, District Pilibhit.
12. L. H. Sugar Factories and Oil Mills Private Limited,
Kasipur, District Nainital.
13. The Bazpur Cooperative Sugar Factory Limited,
Bazpur, District Nainital.
14. The Neoli Sugar Factory, Manpurnagar, P. O. Neoli,
District Etah.
15. The Oudh Sugar Mills Limited, Hargaon,
District Sitapur.
16. The Lakshmiji Sugar Mills Private Limited,
Maholi, District Sitapur.
17. The Seksaria Biswan Sugar Factory Private Limited,
Biswan, District Sitapur.
18. The Hindusthan Sugar Mills Limited, Golagokarsannath,
District Kheri.
19. The Gobind Sugar Mills Limited, P. O. Aira Estate,
District Kheri.
20. The Lakshmi Sugar and Oil Mills Limited, Hardoi.
District Hardoi.
21. Sharda Sugar & Industries Limited, P. O. Box 30,
Palia, District Kheri.

East Uttar Pradesh

1. The Ratna Sugar Mills Company Limited,
Shahganj, District Jaunpur.
2. K. M. Sugar Mills Private Limited, Motinagar
Sugar Mills, P. O. Motinagar, District Faizabad.
3. The U. P. State Sugar Corporation Limited,
Unit Barabanki, District Barabanki.
4. The Burhwal Sugar Mills Company Limited, Burhwal,
District Barabanki.
5. R. B. Lachmandas Sugar and General Mills Private
Limited, P. O. Jarwal Road, District Bahraich.
6. Balrampur Sugar Company Limited, Balrampur
Factory Branch, P. O. Balrampur, District Gonda.
7. Tulsipur Sugar Company Limited, Tulsipur Factory
Branch, P. O. Tulsipur, District Gonda.

8. The Nawabganj Sugar Mills Company Limited,
P. O. Sugar Factory, Nawabganj, District Gonda.
9. The Skaaria Sugar Mills Private Limited,
P. O. Babhnan, District Gonda.
10. The Basti Sugar Mills Company Limited,
P. O. Walterganj, District Basti.
11. The Basti Sugar Mills Company Limited, P. O. Basti,
District Basti.
12. The Madho Mahesh Sugar Mills Private Limited,
P. O. Munderwa, District Basti.
13. Shri Anand Sugar Mills, P. O. Khalilabad,
District Basti.
14. The Ganesh Sugar Mills, P. O. Anandnagar,
District Gorakhpur.
15. Saraya Sugar Mills Private Limited, Sardarnagar
P. O. District Gorakhpur.
16. Diamond Sugar Mills Limited, P. O. Pipraich,
District Gorakhpur.
17. The Punjab Sugar Mills Company Limited,
P. O. Ghughli, District Gorakhpur.
18. Mahabir Sugar Mills Private Limited,
P. O. Siswabazar, District Gorakhpur.
19. The U. P. State Sugar Corporation Limited,
Unit Khadda, P. O. Rajabazar Khadda,
District Deoria.
20. Lakshmi Devi Sugar Mills Private Limited,
Chitauni, P. O. District Deoria.
21. The Shankar Sugar Mills Ltd., Captainganj
P. O. District Deoria.
22. The Ishwari Khetan Sugar Mills Limited,
Lakshmiganj P. O. District Deoria.
23. The Maheshwari Khetan Sugar Mills Private Limited,
P. O. Ramkola, District Deoria.
24. The Ramkola Sugar Mills Company Limited,
P. O. Ramkola, District Deoria.
25. Cawnpore Sugar Works Limited, Padrauna Factory
Branch, P. O. Padrauna, District Deoria.
26. Cawnpur Sugar Works Limited, Kathkuiyan Factory.
Branch, P. O. Kathkuiyan, District Deoria.
27. The United Provinces Sugar Company Limited,
P. O. Seorahi, District Deoria.
28. Shree Sitaram Sugar Company Limited,
P. O. Baitalpur, District Deoria.
29. Cawnpore Sugar Works Limited, Gauri Factory
Branch, P. O. Gauri Bazar, District Deoria.
30. Deoria Sugar Mills Limited, Deoria P. O.,
District Deoria.
31. U. P. State Sugar Corporation Limited, Unit,
Bhatani, P. O. Bhatani, District Deoria.
32. The Partappur Sugar Mills Limited, P. O. Partappura,
District Deoria.
33. The Kashi Sahakari Chini Mills Limited, Aurai,
District Varanasi.

North Bihar

1. North Bihar Sugar Mills Limited, Bagaha,
P. O. Narainpur, District Champaran.
2. Barinagar Sugar Mills Limited, P. O. Harinagar,
District Champaran.

3. The New Swadeshi Sugar Mills Limited,
P. O. Narkatlaganj, District Champaran.
4. Champaran Sugar Company Limited, Barrah Factory
Branch, P. O. Barachakia, District Champarn..
5. Shree Krishna Gyanoday Sugar Limited,
P. O. Lauriya, District Champaran.
6. Motilal Padampat Sugar Mills Company Private,
Limited, Majhulia, District Champaran.
7. The Sugauli Sugar Works Private Limited,
P. O. Sugauli, District Champaran.
8. Gobind Sugar Mills Limited Lessee of Shree
Hanuman Sugar & Industries Limited, P. O. Motihari,
District Champaran.
9. Champaran Sugar Company Limited, Chanpatia
Factory Branch, P. O. Chanpatia, District Champaran.
10. Bellsund Sugar Company Limited, P. O., Righa,
District Muzaffarpur.
11. The Motipur Sugar Factory Private Limited,
P. O. Motipur, District Muzaffarpur.
12. Tirhut Cooperative Sugar Factory Limited,
Ryam Factory, P. O. District Darbhanga.
13. Lohat Sugar Works of the Darbhanga Sugar
Company Limited, P. O. Lohat, District Darbhanga.
14. Sakri Sugar Works of the Darbhanga Sugar Company
Limited, P. O. Sakri, District Darbhanga.
15. Samastipur Central Sugar Company Limited,
Samastipur Factory Branch, P. O. Samastipur,
District Darbhanga.
16. New Indian Sugar Mills Limited, Hassanpur Road
P. O. Hassanpur Sugar Mills, District Darbhanga.
17. Sasa Musa Sugar Works Private Limited,
P. O. Sasa' Musa, District Saran.
18. The Vishnu Suga Mills Limited, P. O. Vishnu
Sugar Mills, Gopalganj, District Saran.
19. Shree Krishna Gyanoday Sugar Limited, Hathua,
P. O. Mirganj, District Saran.
20. Bharat Sugar Mills Limited, P. O. Sidhwalia,
District Saran.
21. Cawnpore Sugar Works Limited, Marhowrah Factory
Branch, P. O. Marhowrah, District Saran.
22. New Savan Sugar tMills, P. O. Siwan, District Saran.
23. Shree Krishna Gyanoday Sugar Limited, P. O. Siwan,
District Saran.
24. The Benar Sugar Works, Branch of the Industrial,
Corporation Limited, P. O. Pachrukhi, District Saran.
25. Purnea Cooperative Sugar Factory Limited,
Banmankhi (Bihar)

South Bihar

1. South Bihar Sugar Mills Limited, P. O. Bihta,
District Patna.
2. Guraru Chini Mills, P. O. Guraru Mills, District
Gaya.

Gujrat

1. Shree Khedut Sahakari Khand Udhog Mandli Limited,
Sardar Bag, Bardoli, District Surat.
2. Shree Madhli Vibhag Khand Udhog Sahakari Mandli
Limited, Madhi, District Surat.

3. The Sahakari Khand Udyog Mandli Limited,
Gandevi via Bilimora, District Bulsar,
4. Shree Bileshwar Kyand Udhog Khedut Sahakari
Mandli Limited, P. O. Kodinar, District Amreli.
5. Shree Una Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli
Limited, District Junagadh (Gu-rat).
6. Shree Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli
Limited, P. O. Chalthan (Western Railway),
District Surat.
7. Charotar Sahakari Khand Udyog Limited,
Palal, Taluka Petiad, District Kaira.
8. Shri Sardar Vallabhbhai Patel Khand Udyog
Cooperative Society Limited,
Bamnabad Road Bhoraj

Madhya Pradesh

1. The Gwalior Sugar Company Limited,
P. O. Dabra, District Gwalior.
2. The Jiwajirao Sugar Company Limited,
P. O. Dalauda, District Mandsaur.
3. Jaora Sugar Mills Private Limited,
P. O. Jaora, District Ratlam.
4. Seth Govindram Sugar Mills,
P. O. Mehidpur Road, District Ujjain.
5. The Bhopal Sagar Industries Limited,
Sdbore, District Sehore.
6. The Morena Mandal Sahakari Shakkar Karkhana
Limited, Kailaras, District Morena (M. P.).

Maharashtra

1. The Ravalgaon Sugar Farm Limited,
P. O. Ravalgaon, District Nasik.
2. Girna Sahakari Sakhar Karkhan Limited,
P. O. Dabhad, Taluka Malegaon, District Nasik.
3. Niphad Sheakari Sakhar Karkhana Limited.,
P.O. Bhausaheb Nagar, District, Nasik.
4. The Sanjivani (Takil) Sahakari Sakhar Karkhana
Limited, P. O. Kopprgaon, District Ahmednagar.
5. The Kopergaon Sahakari Sakhar Karkhana Limited,
P. O. Kulpewadi, District Ahmednagar.
6. The Godavari Sugar Mills Limited,
P. O. Sakarwardi, District Ahmednagar.
7. The Godavari Sugar Mills Limited,
P. O. Lakshmiwadi, District Ahmednagar.
8. Shree Changdeo Sugar Mills Limited,
P. O. Changdeonagar, District Ahmednagar.
9. Shri Ganesh Sahakari Sakhar Karkhana Limited,
Ganeshnagar, P. O. Ranjangaon Khurd,
District Ahmednagar.
10. The Belapur Sugar and Allied Industries Limited,
Harlgaon, District Ahmednagar.
11. Ashok Sahakari Sakhar Karkhana Limited,
Ashoknagar, P. O. Shrirampur, District Ahmednagar.
12. The Maharashtra Sugar Mills Limited, *11*
P. O. Tilaknagar, District Ahmednagar.
13. The Pravara Sahakari Sakhar Karkhana Limited,
P. O. Pravarnagar, District Ahmednagar.
14. The Rahuri Sahakari Sakhar Karkhana Limited.
Shrisivajinagar, Rahuri Factory Branch P. O.
District Ahmednagar.

15. The Shrigonda Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shrigonda, P. O. Belvandi, District Ahmednagar.
16. Sangamner Bhag Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Sangamner, District Ahmednagar.
17. Gangapur Shahkari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Raghunathnagar, Taluka Gangapur, District Aurangabad.
18. Shri Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Nira, District Poona.
19. The Malegaon Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Malegaon, B. K. Taluka Boramati, District Poona.
20. Shri Chhatrapati Shivaji Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Bhavaninagar, Taluka Indapur, District Poona.
21. Walchandnagar Industries Limited, P. O. Walchandnagar, District Poona.
22. Yashwant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Theur, P. O. Theur, Taluka Haveli, District Poona.
23. Yashwant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Akuj, District Sholapur.
24. The Saswad Mali Sugar Factory Limited, P. O. Malinagar, District Sholapur.
25. The Brihan Maharashtra Sugar Syndicate Limited, P. O. Shreepur, District Sholapur.
26. Shree Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Sadashivnagar, Taluka Malshiras, District Sholapur.
27. The Phaltan Sugar Works Limited, P. O. Sakharwadi, District Satara.
28. Shriram Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Phaltan, District Satara.
29. Krishana Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Rethare Budruk P. O. Shivnagar, District Satara.
30. Satara Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bhuinj, District Satara.
31. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Sangli, District Sangli.
32. Shree Warana Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Warananagar, District Kolhapur.
33. The Kolhapur Sugar Mills Limited, Kasaba Bavada, P. O. Kolhapur, District Kolhapur.
34. Shree Panchanganga Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Ichalkaranji, District Kolhapur.
35. The Bhogawati Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Shahunagar (Parite), District Kolhapur.
36. Khumbi Kasari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kuditre, P. O. Koparde, Taluka Karveer, District Kolhapur.
37. Shree Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bidri, P. O. Mouninagar, Taluka Kagal, District Kolhapur.
38. Terna Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Dhoki, District Osmanabad.
39. Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kalambar, Taluka Kandhar, District Nanded.
40. Shri Panzarakan Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bhadne, Taluka Sakri, District Dhulia.
41. The Walwa Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Sakharwadi, Taluka Walwa, District Sangli.

42. Shree Datta Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Asrule, Tehsil Panhola, District Kolhapur.
43. Shree Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shirol Taluka—Shirol, District Kolhapur.
44. Shri Satpuda Tapi Parisar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Lankheda, Taluka Shahada, District Dhulia.
45. Shree Siddheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kumathe, Taluka North Sholapur, District Sholapur.
46. Jijamata Sahakati Sakhar Karkhana Limited, Shankar Nagar, Dansarbid, District Buldana.
47. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Pusad, District Yeotmal.
48. M/s. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Killari, District Osmanabad.
49. Vishwas Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Yashwantnagar, Taluka Shirala, District Sangli.

Mysore

1. The Ugar Sugar Works Limited, P. O. Ugar Khurd, District Belgaum.
2. Hiranyakeshi Sakhari Karkhana Niyamit, P. O. Sankeshwar, District Belgaum.
3. The Salar Jung Sugar Mills, (A division of India Sugars and Refineers Limited), P. O. Munirabad, District Raichur.
4. The India Sugars and Refineers Limited, P. O. Hospet, District Bellary.
5. The Kampli Cooperative Sugar Factory Limited, P. O. Kampli, District Bellary.
6. Shree Mukesh Textile Mills Private Limited, (Thungabhadra Sugar Works), P. O. Shimoga, District Shimoga.
7. Pandavapura Sahakarai Sakhar Karkhana Limited, P. O. Pandavapura, District Mandya.
8. The Mysore Sugar Company Limited, P. O. Mandya, District Mandya.
9. Gauribidanur Sahakara Sakhare Karkhana Limited, Gauribidanur P. O., District Kolar.
10. Bidar Sahakara Sakhare Karkhana Limited, Bidar, District Bidar.
11. Shri Malaprabha Cooperative Sugar Factory Limited, M. K. Hubli, District Belgaum.
12. Vanivilasa Cooperative Sugar Factory Limited, Hiriya, Chitradurga District.
13. Somaiya Sugar Works, District Bijapur Sameerwadi via Mahalingpur

Andhra Pradesh

1. Shree Rama Sugars and Industries Limited, Seethanagaram, District Srikakulam.
2. Sri Rama Sugars and Industries Limited, Bobbili, District Srikakulam.
3. Amadalavalasa Cooperative Agricultural and Industrial Society Limited, P. O. Amadalavalasa, District Srikakulam.

4. Anakapalle Cooperative Agricultural and Industrial Society Limited, Thummapala, P. O. Anakapalle, District Visakhapatnam.
5. The Etikoppaka Cooperative Agricultural and Industrial Society Limited, P. O. Etikoppaka, District Visakhapatnam.
6. The Chodavaram Cooperative Agricultural and Industrial Society Limited, P. O. Govada, District Visakhapatnam.
7. The Thandava Cooperative Agricultural and Industrial Society Limited, P. O. Payakaraopeta, District Visakhapatnam.
8. The Kirlampudi Sugar Mills Limited, Pithapuram, District East Godavari.
9. The Deccan Sugar and Abkari Company Limited, P. O. Samalkot, District Godavari.
10. Sri Sarvaraya Sugars Limited, Chelluru, District East Godavari.
11. V. V. S. Sugars, P. O. Chagallu, District West Godavari.
12. The Andhra Sugars Limited, P. O. Tanuku, District West Godavari.
13. The Palakol Cooperative Agricultural and Industrial Society Limited, P. O. Palakol, District West Godavari.
14. The K. C. P. Limited, P. O. Vuyyuru, District Krishna.
15. Challapalli Sugars Limited, P. O. Challapalli, District Krishna.
16. The Nizam Sugar Factory Limited, Shakarnagar, District Nizamabad.
17. The Nizamabad Cooperative Sugar Factory Limited, P. O. Nizamabad, District Nizamabad.
18. The Chittoor Cooperative Sugars Limited, P. O. Tsavatapalle, Chittoor.
19. The Nizam Sugar Factory Limited, Zahirabad, P. O. Dldgi, District Medak.

Tamil Nadu

1. The Ambur Cooperative Sugar Mills Limited, Vadapudupet, P. O. Ambur, District North Arcot.
2. Madurantakam Cooperative Sugar Mills Limited, Padalam, District Chingleput.
3. E. I. D. Parry Limited, Nellikuppam, District South Arcot.
4. South India Steel and Sugars Limited, Mundiampakkam, Taluka Villupuram, District South Arcot.
5. Aruna Sugars Limited, Pannadam, District South Arcot.
6. Thiru Arooran Sugars Limited, P. O. Vadapathimangalam, District Tanjore.
7. Kothari Sugars and Chemicals Limited, Lalgudi, District Tiruchirappalli.
8. Cauvery Sugars and Chemicals Limited, Cauvery Factory P. O. Pertaivaytolal, District Tiruchirappalli.
9. The Deccan Sugar and Abkari Company Limited, Pugalur Sugar Factory, District Tiruchirappalli.
10. The Salem Cooperative Sugar Mills Limited, Mahamur via Karur, District Salem.

11. Sakthi Sugars Limited, Sakthinagar, P. O. Erode, District Coimbatore.
12. Amaravathi Cooperative Sugar Mills Limited, Krishnapuram East, District Coimbatore.
13. Madura Sugars Limited, Pandiarajapuram, District Madurai.
14. The National Cooperative Sugar Mills Limited, A-2731, Alanganallur P.O., District Madurai.
15. The Kallakurichi Cooperative Sugar Mills Limited, P. O. Moongilthuripattu, District South Arcot.
16. The Dharmapuri District Cooperative Sugar Mills Limited, Post Box No. 4, Palacode, Dharmapuri District.

Pondicherry

1. New Horizon Sugar Mills Company Limited, Sacur (Ariour), Pondicherry.

Orissa

1. Aska Cooperative Sugar Industries Limited, P. O. Aska District Ganjam.
2. Jaypore Sugar Company Limited, P. O. Rayagada, District Koraput.

Assam

1. The Assam Cooperative Sugar Mills Limited, P. O. Barua Bamungaon, District Sibsagar.

Nagaland

1. Nagaland Industrial Development Cooperation, Limited, Sugar Mills Project, Dimapur Kohima (Nagaland).

West Bengal

1. The Ramnuggar Cane and Sugar Company Limited, P. O. Plassey, District Nadia.

Kerala

1. The Travancore Sugars and Chemicals Limited, Pumba River Factory, Tiruvalla P. O., District Quilon.
2. Mannam Sugar Mills Cooperative Limited, No. 4324-Pamdalam P. O., District Alleppy.
3. The Cooperative Sugars Limited, Chittur, P. O. Menonpara, District Palghat.

[No. 2-5/73-SPY.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मन्त्रालय

(लाघ विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1973

सा० का० मि० 509 (अ) /आ० व० / शर्करा.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3गा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) यह आदेश शर्करा (1973-74 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) आदेश 1973 कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. 1973-74 में उत्पादित शर्करा की कीमत—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची 1 के स्तम्भ (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों का उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित सभी वैक्यूम पैन शर्करा कारखानों, अर्थात् वे कारखाने जो इससे उपाबद्ध अनुसूची (2) में विनिर्दिष्ट हैं, द्वारा 1973-74 में उत्पादित और एट्चिस नष्ट बोरों में पैक की गई उसमें वर्णित और अधिग्रहीत शर्करा प्रदाय (नियन्त्रण) आदेश, 1972 की धारा 2 (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को किए जाने के लिए अपेक्षित है, शर्करा की भारतीय शर्करा मानक (भा० शा० मा०) श्रेणियों के लिए सदेव कीमतों के रूप में अवधारण करती है :

परन्तु जहां कहीं कोई शर्करा कारखाना, निकटतम रेल स्टेशन या रेल की किसी आउट एजेंसी से पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है या कारखाने के बाहर के गोदाम से जो रेल से जुड़े हुए नहीं हैं, रेल द्वारा भेजने की दशा में उत्पादक, शर्करा कारखाने और ऐसे रेल स्टेशन या रेल की आउट एजेंसी के बीच के या गोदामों के द्वार पर परिदान देने की स्थिति में ऐसे गोदाम और शर्करा कारखाने के बीच में के पांच किलोमीटर से परे प्रति किलोमीटर एक पैसा प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रभारित कर सकेगा।

स्पष्टिकरण.—(क) उपर्युक्त अनुसूची (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों के अन्तर्गत :

- (i) विक्रय कर के बजाय आध्वारित उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सम्मिलित नहीं हैं जिससे उत्पादक सुसंगत समय में प्रवृत्त दर पर इस आदेश द्वारा तथा अवधारित कीमतों के साथ-साथ वसूल कर सकता है।
- (ii) कारखाने के गोदामों से परिवहन और विक्रेता के विकल्प पर विक्रेता की गाड़ियां, लारियां, परिवहन के अन्य साधनों या रेल स्टेशन या सामान्यतः उत्पादकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साइडिंग पर रेल बैगनों में शर्करा के लदान का प्रभार जिसमें साइडिंग या वैगन डिस्लोई प्रभार सम्मिलित है और
- (iii) सभी अन्य प्रासंगिक प्रभार जिसमें डनेज प्रभार सम्मिलित है आते हैं।

(ख) भारतीय शर्करा मानक श्रेणियों (भा० श० मा० श्रेणियों) से निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा जारी किए गए बॉटलों में शर्करा के मानक मुहरबन्द नमूनों द्वारा व्यपदेशित श्रेणी अभिप्रेत है जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा विहित मानकों के अनुरूप है।

अनुसूची 1

भा० श० भा० श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार (रुपये प्रति क्विंटल) कारखाना द्वारा कीमते
(उत्पादन शुल्क रहित)

क्षेत्र	क—30		क—29			
	ख—30	घ—30	ड—30	ख—29	घ—29	ड—29
	ग—30			ग—29		
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	153.36	152.21	151.66	152.36	151.36	150.86
हरियाणा	152.26	151.11	150.56	151.26	150.26	149.76
राजस्थान	183.76	182.61	182.06	182.76	181.76	181.26
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	154.62	153.47	152.92	153.62	152.62	152.12
मध्य उत्तर प्रदेश	155.39	154.24	153.69	154.39	153.39	152.89
पूर्वी उत्तर प्रदेश	159.41	158.26	157.71	158.41	157.41	156.91
उत्तरी बिहार	169.85	167.70	167.15	167.85	166.85	166.35
दक्षिणी बिहार	176.45	175.30	174.75	175.45	174.45	173.95
गजरात	146.96	145.81	145.26	145.96	144.96	144.46
मध्य प्रदेश	195.16	194.01	193.46	194.16	193.16	192.66
महाराष्ट्र	145.94	144.79	144.24	144.94	143.94	143.44
मैसूर	150.07	148.92	148.37	149.07	148.07	147.57
आन्ध्र प्रदेश	153.24	152.09	151.54	152.24	151.24	150.74
तमिल नाडु और पांडिचेरी	155.11	153.96	153.41	154.11	153.11	152.61
नागालैण्ड, उड़ीसा, असम और पश्चिमी बंगाल	159.31	158.16	157.61	158.31	157.31	156.81

अनुसूची 2

पंजाब

1. दी मोरिण्डा कोपरेटिव शूगर मिल्ज लिमिटेड, मोरिण्डा, जिला अम्बाला।
2. दी जगतजीत शूगर मिल्ज कम्पनी लिमिटेड, फगवाड़ा, जिला कपूरथला।
3. दी मालवा शूगर मिल्ज कम्पनी लिमिटेड, धुरी, जिला संगरूर।

4. दी जनता कोऑपरेटिव शूगर मिलज लिमिटेड, भोंगपुर, पो० जिला जालन्धर ।
5. दी दोआबा कोऑपरेटिव शूगर मिलज लिमिटेड, नवांशहर, जिला जालन्धर ।
6. दी बटाला कोऑपरेटिव शूगर मिलज लि० बटाला, जिला गुरदासपुर ।

हरियाणा

1. दी सरस्वती शूगर मिलज, पो० आ० यमुनानगर, जिला अम्बाला ।
2. दी हरियाणा शूगर मिलज लि०, पो० आ० रोहतक, जिला रोहतक ।
3. दी पानीपत कोऑपरेटिव शूगर मिलज लि० पो० आ० पानीपत, जिला करनाल ।

राजस्थान

1. दी मेवाड़ शूगर मिलज लि०, भोपालसागर, जिला उदयपुर ।
2. श्री गंगानगर शूगर मिलज लि०, श्री गंगानगर पो० आ०, जिला श्री गंगानगर ।
3. श्री केशोर ईपतन सहकारी शूगर मिलज लि०, पो० श्री० केशोरईपतन, जिला बूँशी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश

1. दी मोदी शूगर मिलज (प्रोप० दी मोदी इण्डस्ट्रीज लि०), मोदीनगर, जिला मेरठ
2. दी यू० पी० स्टेट शूगर कारपोरेशन लि० यूनिट मोहिंदीनपुर, जिला मेरठ ।
3. जसवन्त शूगर मिलज लि०, मेरठ शहर, जिला मेरठ ।
4. बोराला शूगर वर्क्स, बोराला, जिला मेरठ ।
5. दी यू० पी० स्टेट शूगर कारपोरेशन लि०, यूनिट संकीटीटाण्डा, जिला मेरठ
6. सबाना शूगर वर्क्स, भवाना, जिला मेरठ ।
7. दी बागपत कोऑपरेटिव शूगर मिलज, लि०, बागपत, जिला मेरठ ।
8. दी सिमौली शूगर मिलज प्राइवेट लि०, पो० सिमौली, जिला मेरठ ।
9. दी निरोत्रेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, शूगर यूनिट दी अपर इण्डिया शूगर मिलज खतोली, जिला मुजफ्फरनगर ।
10. सर शादी लाल शूगर एण्ड जनरल मिलज लि०, मनसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर ।
11. दी अमृतसर शूगर मिलज कं० लि०, रोहताकलां, पो० श्री० रोहाना मिलज, जिला मुजफ्फरनगर ।
12. दी अपर दोआब शूगर मिलज लि०, शामली, जिला मुजफ्फरनगर ।
13. दी पन्नीजी शूगर एण्ड जनरल मिलज कम्पनी, पन्नीनगर, जिला बुलन्दशहर ।
14. दी जानकी शूगर मिलज एण्ड कं० दोईघाला, जिला देहरादून ।
15. दी गंगा शूगर कारपोरेशन लि०, देवबन्द, जिला सहारनपुर ।
16. दी लार्ड कृष्ण शूगर मिलज लि० सहारनपुर, जिला सहारनपुर ।
17. दी किसान कोऑपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, पो० श्री० सरसावा, जिला सहारनपुर
18. राय बहादुर नारायण सिंह शूगर मिलज लि०, लक्सर, जिला सहारनपुर ।
19. दी महालक्ष्मी शूगर मिलज कम्पनी लि० इकबालपुर पो० श्री०, जिला सहारनपुर

केन्द्रिय उत्तर प्रदेश

1. शिव प्रसाद बनारसदास शूगर मिलज, बिजनौर, जिला बिजनौर ।
2. अपरगोजज शूगर मिलज लि०, रिउहार, जिला बिजनौर ।
3. दी धामपुर शूगर मिलज लि०, पो० ओ० धामपुर, जिला बिजनौर ।
4. दी अयुध्या शूगर मिलज, पो० ओ० राजा-का-साहसपुर, जिला मुरादाबाद ।
5. कुन्दन शूगर मिलज, प्राईवेट लि०, असरोहो, जिला मुरादाबाद ।
6. रजा बुलन्द शूगर कम्पनी, लि० पो० ओ०, रामपुर, जिला रामपुर ।
7. एच० आर० शूगर फैक्ट्री, प्राईवेट लि०, बरेली, जिला बरेली ।
8. दी केसर शूगर वर्क्स बेहेरी लि०, जिला बरेली ।
9. रोजा शूगर वर्क्स आफ केरयू एण्ड कम्पनी लि०, रोजा, जिला शाहजहांपुर ।
10. एल० एच० शूगर फैक्ट्री एण्ड आयल मिलज प्राईवेट लि०, पीलीभीत, जिला पीलीभीत ।
11. बी किसान कोपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, मझौला, जिला पीलीभीत ।
12. एल० एच० शूगर फैक्ट्री एण्ड आयल मिलज प्राईवेट लि०, काशीपुर, जिला नैनीताल ।
13. दी बाजपुर कोपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, बाजपुर, जिला नैनीताल ।
14. दी नियोसी शूगर फैक्ट्री मानपुरनगरिया, पो० ओ० निओसी, जिला एटाह ।
15. दी अवय शूगर मिलज लि०, हरगांव, जिला सीतापुर ।
16. दी लक्ष्मीजी शूगर मिलज प्राईवेट, लि०, महोली, जिला सीतापुर ।
17. दी सक्सेरिया बिसवान शूगर फैक्ट्री प्राईवेट लि०, बिसान, जिला सीतापुर ।
18. दी हिन्दुस्तान शूगर मिलज लि०, गोलगोकर्नाथ, जिला खेड़ी ।
19. दी गोबिन्द शूगर मिलज लि०, पो० ओ० ऐरा, रटेट खेड़ी ।
20. दी लक्ष्मी शूगर एण्ड आयल मिलज लि०, हरदोई, जिला हरदोई ।
21. शाहदा शूगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पो० ओ० 30, पालिया खैरी ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश

1. दी रत्ना शूगर मिलज कम्पनी लि०, शाहगंज, जिला जौनपुर ।
2. के० एम० शूगर मिलज प्राईवेट लि०, मोतीनगर शूगर मिलज मोतीनगर, जिला फैजाबाद ।
3. दी यू० पी० स्टेट शूगर कारपोरेशन लि०, यूनिट बैंक वाराणसी, जिला वाराणसी ।
4. दी बुढ़वाल शूगर मिलज कम्पनी लि०, बुढ़वाल, जिला वाराणसी ।
5. आर० बी० लछमनदास शूगर एण्ड जनरल मिलज प्रा० लि०, पो० ओ० जनरल रोड, जिला बहराइच ।
6. बलरामपुर शूगर कम्पनी लि०, बलराम फैक्ट्री ब्रांच, बलरामपुर पो० ओ०, जिला गोंडा ।
7. तुलसीपुर शूगर कम्पनी लि०, तुलसीपुर फैक्ट्री ब्रांच, तुलसीपुर पो० ओ०, जिला गोंडा ।

8. दी नवाबगंज शूगर मिलज, कं० लि०, पो० ओ० शूगर फैक्ट्री, नवाबगंज, जिला गोंडा ।
9. दी सक्सरिया शूगर मिलज प्रा० लि०, पो० ओ० बमनान, जिला गोंडा ।
10. दी बस्ती शूगर मिलज कम्पनी लि०, पो० आ० वाल्टरगंज, जिला बस्ती ।
11. दी बस्ती शूगर मिलज कम्पनी लि० बस्ती, जिला बस्ती ।
12. माधो महेश शूगर मिलज, प्रो० लि०, पो० ओ० मुण्डेरवा, जिला बस्ती ।
13. श्री आनन्व शूगर मिलज लि०, खलीलाबाद, जिला बस्ती ।
14. दर्गा गणेश शूगर मिलज कम्पनी लि०, पो० ओ० आनन्दनगर, जिला गोरखपुर ।
15. सराया शूगर मिलज प्रा० लि०, सरदारनगर, जिला गोरखपुर ।
16. डायमण्ड शूगर मिलज लि०, पिपराहच जिला गोरखपुर ।
17. दी पंजाब शूगर मिलज कम्पनी लि०, प्पुबली, जिला गोरखपुर ।
18. महावीर शूगर मिलज लि०, पो० ओ० सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर ।
19. दी यू० पी० स्टेट शूगर कारपोरेशन लि०, यूनिट खड्डा, पो० ओ० राजाबाजार खड्डा जिला देवरिया ।
20. लक्ष्मी देवी शूगर मिलज (प्रा०) लि०, छितौनी, जिला देवरिया ।
21. दी शंकर शूगर मिलज लि०, कैप्टनगंज, जिला देवरिया ।
22. दी ईश्वरी खेतान शूगर मिलज लि०, लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया ।
23. दी महेश्वरी खेतान शूगर मिलज प्रा० लि०, पो० ओ० रामकोला, जिला देवरिया ।
24. दी रामकोला शूगर मिलज क० लि०, रामकोला, जिला देवरिया ।
25. कानपुर शूगर वर्क्स लि०, पडरौता, जिला देवरिया ।
26. कानपुर शूगर वर्क्स लि०, कथकुइया, फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० कथकुइया, जिला देवरिया ।
27. दी युनाइटेड प्रोविनसज शूगर कम्पनी लि०, सिओराही, पो० ओ०, जिला देवरिया ।
28. श्री सीताराम शूगर मिलज कम्पनी लि०, बेतालपुर पो० ओ०, जिला देवरिया ।
29. कानपुर शूगर वर्क्स लि०, गौरी फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० गौरीबाजार, जिला देवरिया ।
30. देवरिया शूगर मिलज लि०, देवरिया डाकघर, देवरिया ।
31. यू० पी० स्टेट शूगर कारपोरेशन लि०, यूनिट भटनी, पो० ओ० भउटनी जिला देवरिया ।
32. दी प्रतापपुर शूगर मिलज लि०, पो० ओ०, प्रतापपुर जिला देवरिया ।
33. दी काशी सहकारी चीनी मिलज लि०, औराय, जिला बाराणसी ।

उत्तरी बिहार

1. नार्थ बिहार शूगर मिलज लि०, बाघा पो० आ० नरायपुर, जिला चम्पारन ।
2. हरीनगर शूगर मिलज लि०, पो० ओ० हरिनगर, जिला चम्पारन ।
3. दी न्यू स्वदेशी शूगर मिलज लि०, नरकटियागंज, जिला चम्पारन ।
4. चम्पारन शूगर कम्पनी लि०, बाराह फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० बारचकदिया, जिला चम्पारन ।

5. श्री कृष्णा ज्ञानादय शूगर लि०, लौरिया पो० ओ०, जिला चम्पारन ।
6. मोतीलाल पञ्चमपत शूगर मिल्ज कम्पनी प्रा० लि० मझलिया, जिला चम्पारन ।
7. दी सुगोली शूगर वर्क्स प्रा० लि०, पो० ओ० सुगोली, जिला चम्पारन ।
8. गोबिन्द शूगर मिल्ज लि०, लेसी आफ् श्री हनुमान शूगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पो० ओ० मोतीहारी, जिला चम्पारन ।
9. चम्पारन शूगर कम्पनी लि०, चनपटिया फैक्ट्री ब्रांच, पो० ओ० चनपटिया, जिला चम्पारन ।
10. वैलसुद शूगर कम्पनी लि०, रोधा पो० ओ०, जिला मुजफ्फरपुर ।
11. दी मोतीपुर शूगर फैक्ट्री प्रा० लि०, मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर ।
12. दी तिरहोट कोपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, श्याम फैक्ट्री पो० ओ०, जिला दरभंगा ।
13. लोहाट शूगर वर्क्स आफ् दी दरभंगा शूगर कम्पनी लि०, लोहाट पो० ओ०, जिला दरभंगा ।
14. साकरी शूगर वर्क्स आफ् दी दरभंगा शूगर कम्पनी लि०, साकरी पो० ओ० जिला दरभंगा ।
15. समस्तीपुर सैन्ट्रल शूगर कम्पनी लि०, समस्तीपुर फैक्ट्री, ब्रांच, पो० ओ० समस्तीपुर, जिला दरभंगा ।
16. न्यू इण्डिया शूगर मिल्ज लि०, हनसपुर रोड, पो० ओ० शूगरमिल्ज, जिला दरभंगा ।
17. सासा पूसा शूगर वर्क्स प्रा० लि०, सासा पूसा पो० ओ०, जिला सारन ।
18. वी विष्णु शूगर मिल्स लि०, पो० ओ० विष्णु शूगर मिल्ज, गोपालगंज, जिला सारन ।
19. श्री कृष्णा ज्ञानादय, शूगर लि०, हथुआ, पो० ओ०, मीरगंज, जिला सारन ।
20. भारत शूगर मिल्ज लि०, सियवालिया पो० ओ०, जिला सारन ;
21. कानपुर शूगर वर्क्स लि०, मरहोराह फैक्ट्री ब्रांच, मरहोराह पो० ओ०, जिला सारन ।
22. न्यू सावन शूगर मिल्ज, पो० ओ० सिथाव, जिला सारन ।
23. दी कृष्णा ज्ञानादय शूगर लि०, हथुआ, पो० ओ० सिवान, जिला सारन ।
24. दी बिहार शूगर वर्क्स, ब्रांच आफ् दी इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि०, पंचखी, जिला सारन ।
25. पूणिया सहकारी शूगर फैक्ट्री लि०, वनमंखी (बिहार) ।

दक्षिणी बिहार

1. साउथ बिहार शूगर मिल्ज लि०, पो० ओ० बीटा, जिला पटना ।
2. गुरान चीनी मिल्ज, पो० ओ० गुरार मिल्ज, जिला गया ।

गुजरात

1. श्री खेदत सहकारी खाण्ड उद्योग मंडली लि०, सरदारबाग, बरदोली, जिला सूरत ।
2. श्री माधवी विभाग खाण्ड उद्योग सहकारी डिली, लि०, माथी जिला सूरत ।

3. दी सहकारी खाण्ड उद्योग मिल लि०, गंदेवी विलिमीरा, जिला बुलसर से होकर ।
4. श्री विलेश्वर खाण्ड उद्योग खेदुन सहकारी मंडली लि०, कोडीनगर, जिला अमरेली ।
5. श्री ऊना तालुका सहकारी खाण्ड उद्योग मंडिली, लि०, ऊना, (सोरठ), जिला जूनागढ़ ।
6. श्री चलघान विभाग खाण्ड उद्योग सहकारी मण्डली लिमिटेड, पो० ओ० चलघान (वेस्टर्न रेलवे), जिला सूरत ।
7. आरोंतर सहकारी खाण्ड उद्योग लि०, पालज, तालुक पेतलाल, जिला केरा ।
8. श्री सरदार बल्लभ भाई पटेल खाण्ड उद्योग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जमनावाद रोड, धोराजी ।

मध्य प्रदेश

1. दी ग्वालियर शूगर कं० लि०, पो० ओ०, डबरी, जिला ग्वालियर ।
2. दी जीवाजी राव शूगर कं० लि०, दलोदा, जिला मन्दसौर ।
3. दी जावड़ा शूगर मिलज, प्रा० लि०, जावड़ा, जिला रतलाम ।
4. सेठ गोविन्दराम शूगर मिलज, प्रो० ओ० मेंहीदपुर, रोड, जिला उज्जैन ।
5. दी भोपाल शूगर इंडस्ट्रीज लि०, सेहोर, जिला सेहोर ।
6. दी मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना, लि०, केलरस, जिला मुरैना ।

महाराष्ट्र

1. दी रावलगांव शूगर फार्म, लि०, पो० ओ०, रावलगांव, जिला नासिक ।
2. गिरना सहकारी साखर कारखाना, लि०, पो० ओ०, दाबहादी, तार मालेगांव, जिला नासिक ।
3. निफाद सहकारी साखर कारखाना, लि०, पो० ओ० भाउसाहेब नगर, जिला नासिक ।
4. दी संजीवनी (तकली) सहकारी सम्बर, कारखाना लि०, पो० ओ० कोपरगांव जिला अहमदनगर ।
5. दी कोपरगांव सहकारी साखर कारखाना, लि०, पो० ओ० कोलपेवादी, जिला अहमदनगर ।
6. दी गोदावरी शूगर मिलज लि०, पो० ओ० साखरवादी, जिला अहमदनगर ।
7. दी गोदावरी शूगर मिलज लिमिटेड, पो० ओ० लक्ष्मीवादी, जिला अहमदनगर ।
8. श्री चांगदेव शूगर मिलज लि०, पो० ओ० चांगदेव नगर, जिला अहमदनगर ।
9. श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना लि०, गणेशनगर, पो० ओ० रजंनगांव खुर्द, जिला अहमदनगर ।
10. दी बेलापुर शूगर एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पो० ओ० हरिगांव, जिला अहमदनगर ।
11. अशोक सहकारी साखर कारखाना लि०, अशोकनगर, पो० ओ० श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर ।

12. दी महाराष्ट्र शूगर मिल लि०, पो० ओ० तिलकनगर, जिला अहमदनगर ।
13. दी प्रवश सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० प्रवारा, जिला अहमदनगर ।
14. दी राहुरी सहकारी साखर कारखाना लि०, श्री शिवाजी नगर, पो० ओ० राहुरी फैक्ट्री, जिला अहमदनगर ।
15. दी श्री गोंडा सहकारी साखर कारखाना लि०, श्री गोंडा, पो० ओ० बलन्दी, जिला अहमदनगर ।
16. संगमनेर भाग सहकारी साखर कारखाना लि०, संगमनेर, जिला अहमदनगर ।
17. गंगापुर सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० रघुनाथ नगर, ता० गंगापुर, जिला औरंगाबाद ।
18. श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० नीरा, जिला पूना ।
19. दी मालेगांव सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो० ओ० मालेगांव बी० के० ता० बाह्रमन्ती, जिला पूना ।
20. श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो० ओ० भवानीनगर ता० इन्दापुर, जिला पूना ।
21. बालचंदनगर इण्डस्ट्रीज लि०, पो० ओ० बालचंद नगर, जिला पूना ।
22. यशवन्त सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० धीयर, तालुका हबेली, जिला पूना ।
23. यशवन्त सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० अक्लुज, जिला शोलापुर ।
24. दी सासवद माली शूगर फैक्ट्री लि०, पो० ओ० मालीनगर, जिला शोलापुर ।
25. दी ब्रह्म महाराष्ट्र शूगर लि०, पो० ओ० श्रीपुर, जिला शोलापुर ।
26. श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना लि०, सदाशिव नगर, ताल मलशीरस, जिला शोलापुर ।
27. दी फाल्टन शूगर वर्क्स लि०, पो० ओ० साखरवादी, जिला सतारा ।
28. श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० फलटन, जिला सतारा ।
29. कृष्णा सहकारी साखर कारखाना लि०, येथारे बदरुक्, पो० ओ० शिवनगर, जिला सतारा ।
30. सतारा सहकारी साखर कारखाना लि०, भुनिज, जिला सतारा ।
31. शतकारी सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० सांगली, जिला सांगली ।
32. श्री वारना सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० वारनानगर, जिला कोल्हापुर ।
33. श्री कोल्हापुर शूगर मिल लि०, कस्बा बवादा, पो० ओ० कोल्हापुर, जिला कोल्हापुर ।
34. श्री पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० इचलकरांजी, जिला कोल्हापुर ।
35. दी भोगवती सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० साहुनगर (पारीती), जिला कोल्हापुर ।
36. कुम्भी केसरी सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ओ० कोपरदे, जिला कोल्हापुर ।

37. श्री दुध-गंगा—बेदगंगा सहकारी साखर कारखाना लि०, बिदरी पो० ओ०, मीनीनगर, जिला, कोल्हापुर ।
38. तेरना शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि०, धोकी पो० ओ० जिला ओसमानाबाद ।
39. बलम्बर विभाग सहकारी साखर कारखाना लि०, कालम्बार ताल० कंधार, जिला ननवेद ।
40. श्री पंजारकन सहकारी साखर कारखाना लि०, माडन, ताल० सकरी, जिला धूलिया ।
41. वाल्वा तालुका सहकारी साखर कारखाना लि०, ससराही, इस्लामपुर पो० ओ०, जिला सांगली ।
42. श्री दत्ता सहकारी साखर कारखाना, लि०, अमरुले, पाहोला तहसील, जिला कोल्हापुर ।
43. श्री दस्ना शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि०, शिरील, तालुका, शिरील, जिला कोल्हापुर ।
44. श्री सनपुडा तापी परिसर सहकारी साखर कारखाना लि०, लोनखेडा, डोगरगांव, ताल शहादा, जिला धूलिया ।
45. श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कुमाठे तालुका उत्तरी शंसापुर, जिला शोलापुर ।
46. जीजामाना सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, शंकरनगर, दुसरबिद, जिला बुलदाना
47. बसन्त सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पोपहाली, ता० पूनद, जिला यतमल
48. मैसर्स शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, किलारी, जिला ओसमानाबाद (महाराष्ट्र) ।
49. मैसर्स विश्वास सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, यशवन्तनगर, तालुका शिराला, जिला सांगली (महाराष्ट्र) ।

मैसूर

1. दी उगर शूगर वर्क्स लि०, पो० ओ० उगर खुर्द, जिला बेलगांव ।
2. श्री हिरण्यकशी सहकारी साखर कारखाना नियमित, पो० ओ० संकेश्वर, जिला बेलगांव ।
3. दी शालारजंग शूगर मिल, (ए डिबीजन आफ इण्डिया शूगर तथा रिफाइनरी लि०), मुनीराबाद, जिला नेचूर ।
4. दी इण्डिया शूगर एण्ड रिफाइनरी लि०, होमपेट, जिला विलारी ।
5. दी काम्पली कोओपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, काम्पली शूगर फैक्ट्री, पो० ओ०, जिला विशाखी ।
6. श्री मुकेश टैक्नाइल मिल प्राइवेट लि०, (तुंगभद्रा शूगर वर्क्स), शिमोगा, जिला शिमोगा ।
7. पाण्डुरा सहकारी साखर कारखाना लि०, पाण्डुरा, जिला मांडिया ।

8. दी मैसूर शूगर फं० लि०, भाण्ड्या, जिला भाण्ड्या ।
9. गोरी बिदानुर सहकार साखर कारखाने लि०, गोरीबिदानुर, जिला कोलार ।
10. बिदार सहकारी साखरे कारखाने लि०, बिदार, जिला बिदार ।
11. श्री भालप्रभा कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, एम० के० हुगली, जिला बेलगांव ।
12. वाणीविलास कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, हरीचुर, जिला चित्तौदुर्ग ।
13. सुमइया शूगर वर्क्स, समीरवाड़ी, महालिंगपुर, जिला बीजापुर ।

ग्रांध्र प्रदेश

1. श्री रामा शूगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, सीखानग्राम, जिला श्रीकाकुलम ।
2. श्री रामा शूगर्ज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बोविली, जिला श्रीकाकुलम ।
3. अनादालावालासा कोपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, अमादावा-
वालासा पो० ओ०, जिला श्रीकाकुलम ।
4. अनाकापाले कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, कुमापाला,
पो० ओ० अनाकापाले, जिला विशाखापटनम ।
5. दी एंटीकोपाका कोपरेटिव एग्रीकल्चरल-इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, पो० ओ०,
एंटीकोपाका, जिला विशाखापटनम ।
6. दी जीदावरम कोपरेटिव एग्रीकल्चरल-इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, गोवादी, जिला
विशाखापटनम ।
7. दी पाण्डवा कोपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, पो० ओ०,
पयाकोरेपेटा, जिला विशाखापटनम ।
8. दी किरलामपुडी शूगर मिल लि०, पिथापुरम, जिला ईस्ट गोदावरी ।
9. दी दखन शूगर एण्ड आबकारी कम्पनी लि०, पो० ओ० समलकोट, जिला ईस्ट
गोदावरी ।
10. श्री सरवरया शूगर्ज लि०, चेलूरु, जिला गोदावरी ।
11. वी० वी० एस० शूगर्ज, पो० ओ० चंगालु, जिला पश्चिमी गोदावरी ।
12. दी आरधा शूगर्ज लि०, तानुकु, जिला पश्चिमी गोदावरी ।
13. दी पालाकोल कोपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, पो० ओ०,
पालाकोल, जिला पश्चिमी गोदावरी ।
14. दी के० सी० पी० लि०, पो० ओ० ब्यूऊ, जिला कृष्णा ।
15. चल्लापाली शूगर्ज लि०, पो० ओ० चल्लापाली, जिला कृष्णा ।
16. दी निजाम शूगर फैक्ट्री लि०, शक्करनगर, जिला निजामाबाद ।
17. दी निजामाबाद कोपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, निजामाबाद, जिला निजामाबाद ।
18. दी चित्तूर कोपरेटिव, शूगर्ज लि०, पो० ओ०, तसावातापाले, चित्तूर, जिला चित्तूर ।
19. दी निजाम शूगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, पो० ओ० डिडगी, जहीराबाद, जिला भेदक, (ग्रांध्र-
प्रदेश) ।

तामिलनाडु

1. दी अम्बर कोपरेटिव शूगर मिलज लि०, बदापुडपेट अम्बर पो० ओ०, जिला नार्थ अरकाट ।
2. दी मदरन्तकम कोपरेटिव शूगर मिलज, लि०, पो० ओ० पैडालम, जिला चिगलपुट ।
3. ई० आई० डी० पैरी लि०, नैलीकुप्पम पो० ओ०, जिला अरकाट ।
4. दी साउथ इण्डिया स्टील एण्ड शूगर्ज लि०, मण्डीयामपाकम, बिल्लुपुरम तालुक, जिला दक्षिणी अरकाट ।
5. अरुणा शूगर्ज लि०, पेन्नाडम, जिला दक्षिणी अरकाट ।
6. थीर अस्न शूगर्ज लि०, पो० ओ० बदापथिमंगलम, जिला तन्जोर ।
7. कोठारी शूगर्ज एण्ड केमिकल्ज लि०, लालपुडी, जिला तिरुचीरापल्ली ।
8. कावेरी शूगर्ज एण्ड केमिकल्ज लि०, कावेरी फैक्ट्री, पेलेवायतलाई, जिला तिरुचुरा-पल्ली ।
9. दी दखन शूगर एण्ड आबकारी कम्पनी लि०, पो० ओ० पुगालूर, शूगर फैक्ट्री, जिला तिरुचुरापल्ली ।
10. दी सालेम कोपरेटिव शूगर मिलज लि०, मोहानूर कल्लर (नामवकल तालुक) से ह्यो कर जिला सालेम ।
11. दी शक्ति शूगर्ज लि०, शक्तिनगर, पो० ओ० इरोध, जिला कोम्बेत्तूर ।
12. अमरावली कोपरेटिव शूगर मिलज लि०, कृष्णापुरम ईस्ट, जिला कोम्बेत्तूर ।
13. दी मबुरा शूगर्ज लि०, पर्णराजापुरम पो० ओ०, जिला मबुराई ।
14. दी नैशनल कोपरेटिव शूगर मिलज लि०, अलंगमाभूर पोस्त, जिला मबुराई ।
15. कालाकुरिची कोपरेटिव शूगर मिलज लि०, पो० ओ० पूगिलथुरीपट्ट, जिला दक्षिणी अरकाट ।
16. दी धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट कोपरेटिव शूगर मिलज, लि०, पासाकोड, जिला धर्मपुरी ।

पांडीचेरी

1. न्यू होरिजन शूगर मिलज प्राईवेट कं० लि०, सकरूर, (अरियार), पांडीचेरी ।

उड़ीसा

1. असका कोपरेटिव शूगर इण्डस्ट्रीज लि०, पो० ओ० असका, जिला गंजम ।
2. जैपुर शूगर कम्पनी लि०, पो० ओ० रायगढ़, जिला कोरापुट ।

असम

1. आसाम कोपरेटिव शूगर मिलज लि०, पो० ओ० बरुआबामुनगांव, जिला सिवसागर ।

नागालैंड

1. नागालैंड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड, शूगर मिलज परेजैक्ट, दीमा-पुर, कोहिमा 7 (नागालैंड) ।

पश्चिमी बंगाल

1. दी रामनगर केन एण्ड शूगर कम्पनी लि०, पो० ओ० प्लासी, जिला नदिया ।

कोरल

1. दी ट्रावनकोर शूगर्ज एण्ड कैमिकल्ज लि०, पम्बारिवर फैक्ट्री, तिरुवल्ला, पो० ओ०, जिला किलोन ।
2. दी मन्नम शूगर मिलज कोपरेटिव लि०, नं० 4324, पो० ओ० जिला अल्लेपी ।
3. दी कोपरेटिव शूगर्ज लि०, चित्तूर, पो० ओ० मैतनपारा जिला पालघात ।

[2-5/73-एस०पी०वाई०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

